

प्रथम अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2012

केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार

अंकेशन एवं लागत लेखा (पुस्तक रहित)--अंकेशकों एवं वरीय अंकेशकों  
के लिए ।

समय--तीन घंटे ।

पूर्णांक--150

उच्च स्तर--100

PART-'A'/खण्ड 'क'

Objective type questions/वस्तुनिष्ठ प्रश्न

50×1½=75

*Answer all questions. Only one answer among alternatives of each question is correct. No negative marks will be given for wrong answer.*

सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है । प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में कोई एक सही है । गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं दिए जायेंगे ।

1. State which one of the following statement is true—

- (a) Cost accountancy originated to meet the deficiency of Financial Accounting
- (b) Cost accountancy is double accounts system
- (c) Cost accountancy is instrument of cost and good
- (d) Cost accountancy is not a accounts system

निम्नलिखित वक्तव्य कौन सच है—

- (क) लागत लेखा का उदभव वित्तीय लेखांकन की कमियों का पूरा करने के उद्देश्य से है
- (ख) लागत लेखा दोहरी लेखा प्रणाली है
- (ग) लागत लेखा वस्तु की लागत जानने की लेखा प्रणाली है
- (घ) लागत लेखा एक लेखा प्रणाली नहीं है

2. Which one among the following is not a Financial Committee in Lok Sabha—

- (a) Public Accounts Committee
- (b) Committee on Public undertaking
- (c) Committee on Public Railway Safety Fund
- (d) Estimate Committee

निम्नलिखित में से कौन-सी समिति लोक सभा का वित्तीय समिति नहीं है—

- (क) लोक लेखा समिति  (ख) लोक उपक्रमों पर समिति
- (ग) रेलवे सुरक्षा कोष पर समिति  (घ) इस्टीमेट्स समिति

3. Which are among the following is not a true reason for scrutinizing the C.A.G. is Audit Reports by Public Accounts Committee instead of Parliament—

(a) It is difficult for Parliament to scrutinizing the Audit Report due to complex and technical nature of Audit Report

(b) The Parliament cannot spare the time required for scrutinizing the Audit Report

(c) The constitution of India debar the Parliament to scrutinize the CAG is Audit Report

(d) Become Public Account Committee is a Permanent Committee of Parliament

सी०ए०जी० (कन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) के अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा संसद में न करने लोक लेखा समिति द्वारा किये जाने के लिए निम्न कारणों में से कौन-सा एक तथ्य सही नहीं है—

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन का स्वरूप जटिल एवं तकनीकी होने के कारण संसद द्वारा समीक्षा करने में कठिनाई होगी

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा करने के लिए संसद समय नहीं निकाल सकता है

(ग) भारत के संविधान में संसद द्वारा सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा करने पर प्रतिबंध है

(घ) क्योंकि लोक लेखा समिति संसद की एक स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) है

4. Which one among the following is true regarding the salary of the comptroller and Auditor General of Audit—

(a) CAG receives salary equal to the salary of a Cabinet Minister

(b) CAG receives salary equal to the salary of a Chief Secretary of State

(c) CAG receives salary equal to the salary of the Judge of the Supreme Court

(d) CAG receives salary equal to the salary of Chief Justice of a High Court

कन्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल के वेतन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन-सा कथन सही नहीं है—

(क) सी०ए०जी० का वेतन राज्य के मुख्य सचिव के वेतन के बराबर है

(ख) सी०ए०जी० का वेतन भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के वेतन के बराबर है

(ग) सी०ए०जी० का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है

(घ) सी०ए०जी० का वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है

5. The Revenue called by a State Government is credited to one of the following Fund/Bank mention correct answer—

(a) Contingency Fund of State  (b) Reserve Bank of India

(c) Any Nationalised Bank  (d) Consolidated Fund of State

राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व को निम्न में से किस एक फंड/बैंक में जमा किया जाता है—

(क) राज्य का आकस्मिकता निधि  (ख) भारतीय रिजर्व बैंक

(ग) कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक  (घ) कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट

6. Which are among the following is true regarding the approval of Budget of Bihar Government—

- (a) Budget is approved by Bihar Legislative Assembly and Bihar Legislative Council
- (b) Budget is approved by A.G. of Bihar
- (c) Budget is approved only by Bihar Assembly
- (d) Budget is approved by Public Accounts Committee of Bihar Assembly

बिहार सरकार के बजट पारित करने के संबंध में निम्न से कौन-सा कथन सत्य है—

- (क) बजट बिहार विधान-सभा एवं विधान परिषद द्वारा पारित किया जाता है
- (ख) बजट की स्वीकृति महालेखाकार, बिहार द्वारा दी जाती है
- (ग) बजट केवल विधान-सभा द्वारा पारित किया जाता है
- (घ) बजट की स्वीकृति बिहार विधान-सभा के लोक लेखा समिति द्वारा दी जाती है

7. Which one among the following is true regarding sending of closing balance of the Central Government of each month by Reserve Bank of India—

- (a) Closing Balance is sent to Finance Minister of India
- (b) Closing Balance is sent to C.A.G.
- (c) Closing Balance is sent to Prime Minister Office
- (d) Closing Balance is sent to Planning Commission of India

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम संवर्ण शेष प्रत्येक माह में इनमें से किसे भेजा जाता है—

- (क) वित्त मंत्री  (ख) भारत के सी०ए०जी०
- (ग) भारत के प्रधान मंत्री के कार्यालय में  (घ) भारत के योजना आयोग

8. Which one among the following is true regarding recommendation for distribution of Income Tax and Union excise duty between the Central Government and State Govt.—

- (a) Recommendation is made by Finance Commission of India
- (b) Recommendation is made by Planning Commission of India
- (c) Recommendation is made by Reserve Bank of India
- (d) Recommendation is made by Parliament

आयकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच बांटने की अनुशंसा निम्न में से किस एक संस्था द्वारा की जाती है—

- (क) भारत का वित्त आयोग  (ख) भारत का योजना आयोग
- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक  (घ) भारतीय संसद

9. Which one among the following is not a fund in which Government Account is kept—

- (a) Consolidated Fund  (b) Contingency Fund
- (c) Public Account  (d) P.M. Relief Fund

निम्न से कौन-सा एक कोष में लेखा संधारित नहीं किया जाता है-

- (क) कन्सोलिडेटेड फंड  (ख) कन्टीजेन्सी फंड   
 (ग) पब्लिक एकाउंट  (घ) प्रधान मंत्री सहाय्य कोष

10. Which are among the following is true in respect of Grant-in-aid—

- (a) Grant-in-aid are interest free loan   
 (b) Grant-in-aid are final payment in the nature of donation a subscription to grantees   
 (c) Grant-in-aid are loan with 10% interest   
 (d) Grant-in-aid are loan with 15% interest

ग्रान्टस इन एड के संबंध में निम्न में से कौन-सा एक कथन सही है-

- (क) यह एक ब्याज युक्त ऋण है   
 (ख) यह एक भुगतान है जो कि किसी संस्था/सरकार को दान या अंशदान के रूप में किया जाता है   
 (ग) यह एक 10% ब्याज ऋण युक्त एक ऋण है   
 (घ) यह एक 15% ब्याज ऋण युक्त एक ऋण है

11. Which are among the following is true in respect of "Muster Roll"—

- (a) Muster Roll is a register of labourers employed daily on works   
 (b) Muster Roll is a Roll of printing paper   
 (c) Muster Roll is a book of stocks   
 (d) Muster Roll is a register maintained in Government schools for recording the attendance of students

मास्टर रोल के संबंध में निम्न में से कौन-सा एक कथन सही है-

- (क) यह एक उपस्थिति पंजी है जिसमें दैनिक रूप से कार्यरत मजदूरों की उपस्थिति अंकित किया जाता है   
 (ख) यह छपाई कागज का एक रोल होता है   
 (ग) यह एक भंडार पुस्तक है   
 (घ) यह एक पंजी है जिसमें सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित किया जाता है

12. Which are among the following true in respect of term of Office of C.A.G.—

- (a) He holds office for a term of six years but upto age of 65 years   
 (b) He holds office for a term of six years regardless of his age   
 (c) He holds office for a term five years upto age 65   
 (d) He holds office for a term of 3 years regardless of his age

सी०ए०जी० के कार्य अवधि के संबंध में कौन-सा कथन सही है-

- (क) सी०ए०जी० की नियुक्ति छः वर्षों के लिए होती है   
 (ख) सी०ए०जी० की नियुक्ति में उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं होता है   
 (ग) सी०ए०जी० की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए होती है परन्तु 65 वर्ष के उम्र के अंतर्गत   
 (घ) सी०ए०जी० की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए होती है, उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है

13. Which one among the following is not a part of duty of an Auditor—

- (a) To examine the Balance Sheet
- (b) To prepare the profit and loan A/C
- (c) To examine the vouchers
- (d) To examine the receipts and expenditure

एक अंकेक्षक के कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन एक कथन सही नहीं है—

- (क) एक अंकेक्षक बैलेंसशीट का जांच करता है
- (ख) अंकेक्षक लाभ-हानि का विवरण तैयार करता है
- (ग) अंकेक्षक अभिश्रवों की जांच करता है
- (घ) अंकेक्षक प्राप्तियों एवं व्यय की जांच करता है

14. Which one of the following is not true with respect to Audit—

- (a) Audit is an instrument of Financial Control
- (b) Audit is an instrument of Central wasteful and expenditure
- (c) Audit is an instrument to detect Fraud and Fund
- (d) Audit is an instrument for defecting theft maintained from a store

अंकेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है—

- (क) अंकेक्षण वित्तीय नियंत्रण का एक माध्यम है
- (ख) अंकेक्षण अनावश्यक व्यय रोकने का माध्यम है
- (ग) अंकेक्षण कोष के गवन/धोखाधड़ी रोकने का एक माध्यम है
- (घ) अंकेक्षण भंडार सामग्रियों की चोरी रोकने का एक माध्यम है

15. Which one among the following is true with respect to bifurcation of the cadre of the A.G. offices in 1984—

- (a) The cadre was bifurcated into two
- (b) The cadre was bifurcated into three
- (c) The cadre was bifurcated into four
- (d) The cadre was bifurcated into five

महालेखाकार कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों के वर्ष 1984 विभक्त किए जाने के संबंध में निम्न से कौन-सा एक कथन सही है—

- (क) महालेखाकार कार्यालय के कैडर को दो भागों में विभक्त किया गया
- (ख) महालेखाकार कार्यालय के कैडर को तीन भागों में विभक्त किया गया
- (ग) महालेखाकार कार्यालय के कैडर चार भागों में विभक्त किया गया
- (घ) महालेखाकार कार्यालय कैडर को पांच भागों में विभक्त किया गया

16. The "Prime Costs" refer to—

- (a) Manufacturing cost incurred to produce unit of output
- (b) All cost associated with manufacturing other than direct labour costs and raw material cost
- (c) Cost which are predetermined and should be attained
- (d) The sum of direct labour cost and all factory overhead cost

मूल लागत का तात्पर्य है—

- (क) सामान बनाने में लगने वाले सभी प्रत्यक्ष व्यय
- (ख) वह लागत जिसमें प्रत्यक्ष श्रम व्यय एवं प्रत्यक्ष सामग्री व्यय शामिल है
- (ग) वह लागत जिसमें कारखाना ऊपरि व्यय एवं प्रत्यक्ष श्रम व्यय शामिल हो
- (घ) जिसमें मात्र प्रत्यक्ष सामग्री व्यय शामिल हो

17. The term "Sunk Cost" refer to—

- (a) The cost that are now irrevocable
- (b) The cost that revocable
- (c) The cost that are directly influenced by unit manager
- (d) The cost that should be incurred in particular production process

डूबी लागत का तात्पर्य है—

- (क) जिसे वसूल नहीं किया जा सकता है  (ख) जिसे वसूल किया जा सकता है
- (ग) वह लागत जो यूनिट मैनेजर से सीधा प्रभार पड़ता हो
- (घ) वह लागत जो एक विशेष उत्पादन पर प्रभार पड़े

18. The term of 'Cost' refer to—

- (a) An asset that has given benefit and is now expired
- (b) An asset that has not given benefit and is now expired
- (c) The value of the sacrifices made to acquire goods or service
- (d) The present value to future benefits

लागत का तात्पर्य है—

- (क) वह सम्पत्ति लाभ दिया लेकिन समाप्त हो गया
- (ख) वह सम्पत्ति जो लाभ नहीं दिया लेकिन समाप्त हो गया
- (ग) जो सामग्रियों पर लगाने में व्यय करते हैं
- (घ) वर्तमान लागत जो भविष्य के लिए हो

19. A Bussiness Telephone is charged on—

- (a) Permanent cost  (b) Semi Permanent Cost
- (c) Variable Cost  (d) Semi Veriable Cost

एक व्यापारिक दूरभाष किस व्यय में वर्गीकृत किये जायेंगे—

- (क) स्थाई लागत  (ख) अर्द्ध-स्थायी लागत   
 (ग) परवर्तनीय लागत  (घ) अर्द्ध-परवर्तनीय लागत

20. A given firing benefit to factory labour is charged on—

- (a) Direct labour  (b) Administrative exp.   
 (c) Factory over head  (d) Work on progress inventory

“कारखाना श्रमिक” को प्रदत्त फींग बनेफीट किस पर वहन होता है—

- (क) सीधा श्रम  (ख) प्रशासनिक व्यय   
 (ग) कारखाना परिव्यय  (घ) वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री

21. Which of the following is usually prepared at daily by employee for each job worked on—

- (a) Labour Job Ticket  (b) Time Card   
 (c) Punch Card  (d) Cost Control Card

एक नियोजक द्वारा इनमें से कौन जांच वर्कर के लिए तैयार किया जाता है—

- (क) लेवर जांच टिकट  (ख) समय कार्ड   
 (ग) छिद्रक कार्ड  (घ) लागत नियंत्रण कार्ड

22. Which of the following methods of remuneration is most likely to give stability of labour cost to the employer—

- (a) Piece work  (b) Premium Bonus Scheme   
 (c) Measured day work  (d) Group Bonus Scheme

इनमें से कौन-सा प्रणाली पारिश्रमिक के लिए पसंद किया जाता है जो कर्मचारी के आय में स्थिरता एवं नियोजक के लिए श्रम लागत में स्थिरता प्रदान करता है—

- (क) खंड कार्य  (ख) अधिलाभांश योजना   
 (ग) नापित कार्य दिवस  (घ) समूह लाभांश योजना

23. Vocation pay for factory works should be charged to—

- (a) Work in progress inventory  (b) Direct Labour   
 (c) Administrative expense  (d) Factory overhead

अवकाशकालिक वेतन इनमें किस पर भारित है—

- (क) वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री  (ख) सीधा श्रम   
 (ग) प्रशासनिक व्यय  (घ) कारखाना ऊपरीव्यय

24. What is Zero Base Budget—

- (a) It is not Budget  (b) The Budget prepare on Zero Base   
 (c) It is prepared on base of last date  (d) It is simple Budget

शून्य आधार का बजट क्या है—

- (क) यह बजट नहीं है
- (ख) यह शून्य आधार मानकर बजट बनाया जाता है
- (ग) यह पिछली आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है
- (घ) यह एक साधारण बजट है

25. Which country adopted Zero Base Budget for first time—

- (a) U.S.A.  (b) Great Britain (U.K.)
- (c) Germany  (d) France

शून्य आधारित बजट को किस देश ने सर्वप्रथम अपनाया—

- (क) संयुक्त राज्य अमेरिका  (ख) ग्रेट ब्रिटेन
- (ग) जर्मनी  (घ) फ्रांस

26. What is LIFO method—

- (a) Last in firstout  (b) First in firstout
- (c) Not in notout  (d) Last in notout

LIFO (लीफो) प्रणाली क्या है—

- (क) बाद में आना पहले जाना  (ख) पहले आना बाद में जाना
- (ग) नहीं आना नहीं जाना  (घ) बाद में आना नहीं जाना

27. What is FIFO method—

- (a) Last in firstout  (b) First in firstout
- (c) It is not a method  (d) None of these

FIFO (फीफो) प्रणाली क्या है—

- (क) बाद में आना पहले जाना  (ख) पहले आना पहले जाना
- (ग) यह कोई प्रणाली नहीं है  (घ) इनमें से कोई नहीं है

28. Bank reconciliation statement means—

- (a) Reconciliation Bank Problem  (b) Reconciliation of Customers
- (c) Reconciliation of Pass Book
- (d) Reconciliation to Bank Statement with Cash Book

बैंक समाधान विवरणी का तात्पर्य है—

- (क) बैंक की समस्याओं का समाधान  (ख) ग्राहकों की समस्याओं का समाधान
- (ग) पास बुक का मिलना कार्य
- (घ) बैंक स्टेटमेंट से रोकड़ पुस्त का मिलान कार्य

29. Bad Debts means—

- (a) The debts is not recoverable  (b) It is not debt
- (c) The debts in recoverable  (d) The debts paid to other company



अप्रात्य ऋण है—

- (क) वह ऋण जो वापस होने वाला नहीं  (ख) जो ऋण नहीं है   
 (ग) वह ऋण जो वापस होने वाला हो  (घ) ऋण जो किसी दूसरे कम्पनी को देना है

30. Balance sheet is—

- (a) A trail balance   
 (b) Show the economic condition of any institution   
 (c) Time table of Railway  (d) Sheet of journal ledger

आर्थिक चिट्ठा है—

- (क) एक तलपट   
 (ख) किसी संस्था के आर्थिक हालात को दर्शाता है   
 (ग) रेलवे का समय सारणी है  (घ) रोजनामचे का चिट्ठा है

31. Depreciation deducted on—

- (a) Building and Machine  (b) Only Building   
 (c) Only liability  (d) Only cash

हास (ह्रास) इनमें किस पर कार्य जाता है—

- (क) यह भवन और मशीन पर  (ख) यह सिर्फ भवन पर   
 (ग) यह देयता पर  (घ) यह नगदी पर

32. Audit is best instrument of Financial control—

- (a) It is true  (b) It is half true   
 (c) It is not defination of Audit  (d) It is not a practical defination

अंकेक्षण वित्तीय नियंत्रण को एक सबसे अच्छी प्रणाली है—

- (क) बिल्कुल सही है  (ख) आधा सही है   
 (ग) यह अंकेक्षण की परिभाषा नहीं है  (घ) यह परिभाषा व्यवहारिक नहीं है

33. Which is fixed assets—

- (a) Land and building  (b) Debtors   
 (c) Cash  (d) Share capital

इनमें से कौन स्थाई सम्पत्ति है—

- (क) भूमि एवं भवन  (ख) लेनदार   
 (ग) नगदी  (घ) अंशपूजी

34. Routine check means—

- (a) Continuous check  (b) Checking of posting in ledger   
 (c) To check work of employee  (d) Checking of character of employee

नैष्यक जांच का तात्पर्य है—

- (क) लगातार जांच  (ख) खाता बही में खतियाने की जांच करना   
 (ग) कर्मचारी के काम का जांच करना  (घ) नियोक्ता के चरित्र का जांच करना

35. Who Audit a private person—

- (a) A Chartered Accountant
- (b) C.A.G. (Comptroller and Auditor General)
- (c) Chief Controller of Accounts  (d) Deputy Controller of Accounts

निजी व्यक्तियों का अंकेंक्षण कौन करता है—

- (क) एक सनदी लेखाकार द्वारा किया जाता है
- (ख) कम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल द्वारा किया जाता है
- (ग) उप-लेखा नियंत्रक द्वारा किया जाता है
- (घ) उप-लेखा नियंत्रक द्वारा किया जाता है

36. Company Audit report related to—

- (a) Define in Company Act, 227 (2)  (b) Define in Company Act, 228
- (c) Not define in Company Act  (d) None of these

कम्पनी अंकेंक्षण प्रतिवेदन के संबंध में—

- (क) कम्पनी अधिनियम की धारा 227 (2) में परिभाषित है
- (ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 228 में परिभाषित है
- (ग) यह कम्पनी अधिनियम में परिभाषित नहीं है
- (घ) इनमें से कोई नहीं है

37. In which para "Investment Audit" defined in Indian Government Accounts and Audit—

- (a) Para 286  (b) Para 290
- (c) Para 292  (d) Para 291

विनियोग अंकेंक्षण भारत सरकार के लेखा एवं अंकेंक्षण परिचय के किस पारा में परिभाषित है—

- (क) पारा 286  (ख) पारा 290
- (ग) पारा 292  (घ) पारा 291

38. Double Accounts system is—

- (a) It is a scientific method  (b) It is not a account method
- (c) It is wrong method of accounts  (d) None of these

दोहरी लेखा प्रणाली—

- (क) यह एक वैज्ञानिक लेखा प्रणाली है  (ख) यह लेखा प्रणाली नहीं है
- (ग) यह लेखा की गलत तरीका है  (घ) इनमें से कोई सही नहीं है

39. Voucher means—

- (a) Receipt passed called voucher  (b) Receipt called voucher
- (c) No any amount prints of voucher  (d) None of these

अभिश्चव का तात्पर्य है—

- (क) रसीद जो पारित किया जाता हो अभिश्चव कहलाता है
- (ख) रसीद को अभिश्चव कहते हैं
- (ग) अभिश्चव में कोई राशि अंकित नहीं होती है
- (घ) इनमें से कोई सही नहीं है

40. Who Audit "Coal Block"—

- (a) Audit Team of Bihar Govt.  (b) Audit Team of Coal Ministry   
 (c) C.A.G. comptroller and Auditor General   
 (d) None of these

'कोल ब्लॉक' का अंकेक्षण किसने किया—

- (क) बिहार सरकार का अंकेक्षण दल  (ख) कोयला मंत्रालय का अंकेक्षण दल   
 (ग) कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल  (घ) इनमें से कोई नहीं

41. C.A.G. Audit is constitutional Audit—

- (a) It is true  (b) It is not true   
 (c) It is half true  (d) None of these

सी०ए०जी० का अंकेक्षण एक संवैधानिक अंकेक्षण है—

- (क) यह बिल्कुल सही है  (ख) यह सही नहीं है   
 (ग) यह आधा सही है  (घ) इनमें से कोई नहीं है

42. Profit and loss accounts prepared in—

- (a) One time in a year  (b) Two time in a year   
 (c) Three time in a year  (d) Monthly prepared

लाभ हानि खाता—

- (क) साल में एक बार तैयार किए जाते हैं  (ख) साल में दो बार तैयार किए जाते हैं   
 (ग) साल में तीन बार तैयार किए जाते हैं  (घ) मासिक तैयार किए जाते हैं

43. In which date effect MDVAT scheme—

- (a) 1st March, 1986  (b) 1st March, 1988   
 (c) 15th January, 1990  (d) 26th January, 1986

मोडिफाइड वैल्यु एवं टैक्स योजना निम्न तिथि से लागू है—

- (क) 1 मार्च, 1986  (ख) 1 मार्च, 1988   
 (ग) 15 जनवरी, 1990  (घ) 26 जनवरी, 1986

44. "Custom Audit" means—

- (a) Audit of Custom expenditure   
 (b) Audit of Custom Income expenditure   
 (c) Audit of receipts of Custom  (d) None of these

कस्टम अंकेक्षण का तात्पर्य है—

- (क) कस्टम के व्यय का अंकेक्षण  (ख) कस्टम का आय-व्यय का अंकेक्षण   
 (ग) कस्टम में प्राप्तियों का अंकेक्षण  (घ) इनमें से कोई नहीं

45. Direct Tax means—

- (a) Income Tax and Wealth Tax  (b) Custom Duty   
 (c) Sales Tax  (d) None of these

प्रत्यक्ष कर का तात्पर्य है—

- (क) आय कर एवं धन कर  (ख) सीमा शुल्क   
 (ग) वाणिज्य कर  (घ) इनमें से कोई नहीं

46. Railway development fund was established on—

- (a) 1st April, 1950  (b) 1st April, 1962   
 (c) 26th January, 1950  (d) 15th August, 1950

रेलवे विकास कोष की स्थापना कब हुई थी—

- (क) 1 अप्रैल, 1950  (ख) 1 अप्रैल, 1962   
 (ग) 26 जनवरी, 1950  (घ) 15 अगस्त, 1950

47. Railway pension fund was established on—

- (a) 1st April, 1964  (b) 1st April, 1965   
 (c) 15th August, 1964  (d) 26th January, 1964

रेलवे पेंशन फंड की स्थापना हुई थी—

- (क) 1 अप्रैल, 1964  (ख) 1 अप्रैल, 1965   
 (ग) 15 अगस्त, 1964  (घ) 26 जनवरी, 1964

48. Where is Head Quarter of Defence Accounts—

- (a) Controller of Deffence Accounts, Merrut   
 (b) Controller of Deffence Accounts, Patna   
 (c) Controller of Deffence Accounts, Jammu   
 (d) None of these

डिफेंस एकाउंट का मुख्यालय कहां है—

- (क) रक्षा लेखा नियंत्रक, सी०सी० मेरठ  (ख) रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना   
 (ग) रक्षा लेखा नियंत्रक, एन०सी० जम्मू  (घ) इनमें से कोई नहीं

49. Appointment of C.A.G. in Indian constitution is described in which article—

- (a) Article 148  (b) Article 150   
 (c) Article 151  (d) None of these

भारत के कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जेनरल की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है—

- (क) अनुच्छेद 148 के अंतर्गत  (ख) अनुच्छेद 150 के अंतर्गत   
 (ग) अनुच्छेद 151 के अंतर्गत  (घ) इनमें से कोई नहीं

50. Main duties of Auditor are—

- (a) Verification of assets and liability of company   
 (b) Only verification of liability of company   
 (c) Only verification of assests of company   
 (d) None of these

एक अंकेषक का मुख्य कार्य है—

- (क) कम्पनी के सम्पत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन  
 (ख) कम्पनी के केवल दायित्वों का सत्यापन  
 (ग) कम्पनी के केवल सम्पत्तियों का सत्यापन  
 (घ) इनमें से कोई नहीं

  
  
  


Part-'B'/खंड-‘ख’

*Answer any five questions. Answer of each question should be given in about 100 words.* किन्हीं पांच प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दें।

Write short notes on—

5×6=30

1. Cost accountancy

लागत लेखांकन

2. Contract casting material

ठेका परिव्यांकन पद्धति

3. Batch casting method

समूह परिव्यांकन पद्धति

4. Government Audit

सरकारी अंकेक्षण

5. Complete Audit

पूर्ण अंकेक्षण

6. Accountant General

महालेखाकार

7. Zero Base Budget

शून्य आधारित बजट

8. Balance Sheet.

आर्थिक चिट्ठा

Long answer type question/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

*Answer any three questions. Each question carries 15 marks.* किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दें।  
प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। 15×3=45

1. What is codification of materials. Describe the different method and limitation of each method.

सामग्री का संकेतिकरण क्या है। विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक पद्धति के सीमाओं को बताइए।

2. What is Audit note book, What is its utility, What are its contents. How far is it useful to an Auditor.

अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक क्या है इसकी क्या उपयोगिता है। इनकी विषय सामग्री क्या है। एक अंकेक्षक को यह कितना सहायक होती है।

3. What is Idle Time and how should it be treated in Cost Accounts.

कार्यहीन काल क्या है तथा परिव्यय लेखों में इसका लेखा किस प्रकार किया जाना चाहिए।

4. What is Investment Audit ? What is its Object and Scope.

विनियोग अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं ? इस अंकेक्षण के उद्देश्य एवं कार्य क्या है ?

5. What are duty of Comptroller and Auditor General under Indian Constitution.

भारत संविधान के अन्तर्गत भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या है वर्णन करें।